

COVID-19 से अपने आशंका को कम करें



अपने हाथों को
बार-बार साफ करें




अक्सर छूने वाली वस्तुओं और
सतहों को साफ और कीटाणु
रहित करें



अपनी मुड़ी हुई कोहनी
में खांसी या छींके



यदि आप अस्वस्थ हैं तो
घर पर रहें और ज़रूरत
पड़ने पर देखभाल
करवाए



एक दूसरे से कम से कम 2 मीटर
की दूरी पर रखें



अपना मास्क पहनें



भीड़ भरे स्थानों से बचें
और संलग्न स्थानों में
समय सीमित रखें

